

नीति, शोध एवं मूल्यांकन

/ अलग-अलग एकत्र किए जाने वाले जाति संबंधी डेटा का संग्रहण फ्रेमवर्क व गाइडलाइंस

सरकार व संस्थानों द्वारा अलग-अलग एकत्र किए जाने वाले डेटे के जाति-आधारित डेटा संग्रहण, विश्लेषण व सार्वजनिक रिपोर्टिंग को मजबूत व आधुनिक बनाने के लिए।

/ जातिवाद-विरोधी प्रभाव मूल्यांकन फ्रेमवर्क

अग्रसक्रिय रूप से पूर्वानुमान लगाने व यह जांच-पड़ताल करके अज्ञान पक्षपात को दूर करने के लिए कि स्वदेशी व जातीयता समूह किस प्रकार सरकार व संस्थानों के कार्यक्रमों व नीतियों से प्रभावित हो सकते हैं।

निरंतरता एवं जवाबदेही

/ जातिवाद-विरोधी कानून:

सरकार की प्रस्तावित कानून के साथ जातिवाद-विरोध के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को सुगम बनाने के लिए, जो, यदि पास हो गया, तो सरकार को संगठनों द्वारा जाति-संबंधी डेटा एकत्रीकरण व एक जातिवाद-विरोधी प्रभाव मूल्यांकन फ्रेमवर्क मानकों के प्रयोग को जरूरी बनाने का अधिकार देगा। प्रस्तावित कानून नवीकरणीय बहु-वर्षीय सामरिक योजनाओं के माध्यम से जातिवाद-विरोधी पहलकदमियों, विशेष लक्ष्य, सार्वजनिक रिपोर्टिंग व सामुदायिक परामर्श को भी संभव बनाएगा।

/ प्रगति पर सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट

उनके लिए जो *A Better Way Forward* के निरंतर परिणाम दर्शाते हैं और सीखे गए सबक को सांझा करते हैं।

जन शिक्षा एवं जागरूकता

/ नियोजित जन शिक्षा एवं जागरूकता

जातिवाद के कई रूपों के प्रति जनता समझ को गहरा बनाने के लिए, ब्लैक जातिवाद-विरोधी, स्वदेशी जातिवाद-विरोधी, एंटीसेमीटिज्मस इस्लामोफोबिया व जातीयता संबंधी समूहों जैसे कि सिख, के विरुद्ध जातिवाद के अन्य रूपों पर ध्यान केंद्रित करने सहित।

इस कार्य के हिस्से के तौर पर, इस्लामोफोबिया के कारणों एवं प्रभाव की बेहतर समझ के लिए, विद्यार्थियों के लिए जन शिक्षा को विकसित करने व इस्लामोफोबिया की रिपोर्ट की गई घटनाओं के एकत्रीकरण व प्रकाशन का पता लगाने के लिए सामुदायिक संगठनों को शामिल किया जाएगा।

सामुदायिक तालमेल

/ मंत्री का जातिवाद-विरोधी परामर्श समूह

योजना के कार्यान्वयन में सहयोग देने के लिए, जातिवाद-विरोधी एवं क्षेत्र-विशेष विशेषज्ञता के साथ-साथ जीवंत अनुभवों वाले सामुदायिक साझेदारों व व्यवसायिक प्रतिनिधियों के साथ निरंतर बातचीत को सुगम बनाने के लिए।

/ जातिवाद-विरोधी सम्मेलन

जानकारी की अदला-बदली करने और सरकार के जातिवाद-विरोधी टूलस, कार्यनीतियों एवं फ्रेमवर्क का मूल्यांकन करने के लिए शोधकर्ताओं, सामुदायिक साझेदारों व नीति निर्माताओं को साथ लाने के लिए।

आबादी-विशेष जातिवाद-विरोधी पहलकदमियां

पूरे जातिवाद से निपटना जरूरी है, लेकिन हमारे पास प्रत्येक परिस्थिति के लिए अनुकूल दृष्टिकोण नहीं हो सकता। कुछ समुदायों द्वारा सहन की जाने वाली बहुत अधिक असमानताओं का पता लगाना जरूरी है।

/ ब्लैक जातिवाद-विरोधी योजना

विशेष क्षेत्रों में ब्लैक जातिवाद-विरोध पर ध्यान देने के लिए, जैसे बाल कल्याण, शिक्षा एवं न्याय, साझेदार मंत्रालय पहलकदमियों के प्रभाव से व विशेष लक्ष्य तय करके, जिन्हें सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया जाएगा।

/ स्वदेशी-केंद्रित जातिवाद-विरोधी योजना

सामंजस्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, स्वदेशी लोगों द्वारा सहन किए जाने वाले योजनाबद्ध जातिवाद को लक्ष्य बनाने के लिए स्वदेशी साझेदारों के सहयोग में विकसित की जानी है।

/ ओनटैरियो जन सेवा (OPS) जातिवाद-विरोधी योजना

योजनाबद्ध जातिवाद के प्रति कर्मचारियों की जागरूकता एवं संवेदनशीलता को बढ़ाने और OPS में जातिवाद का मुकाबला करने के लिए टूलस, युक्तियों व लक्ष्य तैयार करने व उनका कार्यान्वयन करने के लिए।



A BETTER WAY FORWARD: ओनटैरियो की 3-वर्षीया जातिवाद-विरोधी सामरिक योजना में सरकारी नीतियों, निर्णयों एवं कार्यक्रमों में योजनाबद्ध जातिवाद को लक्ष्य बनाया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष सामर्थ्य का पूरा लाभ उठा सके व समाज में पूरी तरह से अपनी भागीदारी निभा सके।

योजनाबद्ध जातिवाद - जिसमें शामिल है ब्लैक जातिवाद-विरोधी, स्वदेशी जातिवाद-विरोधी अन्य जातीय समुदायों द्वारा सहन किया जाने वाला जातिवाद - हमारे रोजाना जीवन व उन संस्थानों में गहराई से शामिल हो गया है, जिन पर हम आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के लिए निर्भर होते हैं। यह विशेष सुविधा प्राप्त व वंचित लोगों के बीच और अंतर पैदा करता है। यह स्वीकार्य नहीं है और हमें अपने काम करने के तरीके को बदलने और जातीय समानता की ओर अग्रसर होने के लिए अवरोधों को तोड़ने की आवश्यकता है।

A BETTER WAY FORWARD

ओनटैरियो की 3-वर्षीया जातिवाद- विरोधी सामरिक योजना

A BETTER WAY FORWARD: ओनटैरियो की 3-वर्षीया जातिवाद-विरोधी सामरिक योजना का नेतृत्व ओनटैरियो के एंटी-रेसिज्म डायरेक्टोरेट द्वारा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, इस वेबसाइट पर जाएं:

ontario.ca/antiracism



PHOTOGRAPHY HASNAIN DATTU

[Ontario.ca/antiracism](https://ontario.ca/antiracism)